

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,  
माध्यमिक शिक्षा विभाग,  
उत्तराखण्ड शासन।

सैनिक कल्याण अनुभाग

देहरादून: दिनांक 26 अगस्त, 2016

विषय:—जनपद रुद्रप्रयाग की तहसील जखोली में प्रस्तावित/निर्माणाधीन सैनिक स्कूल के सम्बन्ध में।

महोदय,

विभिन्न प्रदेशों में स्थापित सैनिक स्कूलों का संचालन व्यय आदि का दायित्व शिक्षा विभाग के स्तर से होने तथा राज्य में स्थापित सैनिक स्कूल घोड़ाखाल का संचालन व्यय आदि का दायित्व भी शिक्षा विभाग द्वारा किये जाने दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील जखोली में प्रस्तावित/निर्माणाधीन सैनिक स्कूल से सम्बन्धित विभिन्न कार्यवाही यथा—निर्माण, व्यय व संचालन आदि का कार्य सैनिक कल्याण विभाग से शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में सम्बन्धित पत्रावलियां एवं अभिलेख (संलग्न सूची के अनुसार) संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया तदनुसार अग्रतः कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक—यथोपरि सूची।

भवदीय,

(आनन्द बर्द्धन)  
सचिव।

संख्या: 944 / XVII-5/16-09(47)/2008 तददिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग।
5. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिषद, देहरादून।
6. निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0, देहरादून।
8. प्रधानाचार्य, सैनिक स्कूल, घोड़ाखाल, नैनीताल।
9. महाप्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

प्रदीप सिंह रावत  
(प्रदीप सिंह रावत)  
अपर सचिव।